

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472.]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर 2015—अग्रहायण 3, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक-बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 19 नवम्बर 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला श्योपुर के ग्रामों की संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित कर खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी. इसमें पुनः संशोधन कर उक्त ग्रामों की सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये पटवारी हल्का स्तर पर राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है, तदनुसार मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

## राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

क्र.	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	छोड़े गये पटवारी हल्का नम्बरों की संख्या	फसल			
				धान	सोयाबीन	बाजरा	मक्का
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	श्योंपुर	प्रेमसर	22	धान	सोयाबीन	-	-
2	कराहल	गोरस	08	धान	सोयाबीन	-	मक्का
3	विजयपुर	विजयपुर	24	-	-	बाजरा	-
4	-	अगरा	09	-	-	बाजरा	-
5	बड़ोदा	पांडोला	20	धान	सोयाबीन	-	-
6	वीरपुर	वीरपुर	15	-	-	बाजरा	-
योग :			98	-	-	-	-